



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/ आश्विन 4, 1941 (शक)  
No. 61] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

*New Delhi, the 26th September, 2019/Asvina 4, 1941 (Saka)*

### CORRIGENDA

In the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 15 of 2019) as published in a Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 1, dated the 20th September, 2019 (Issue No. 60),-

1. At page 2, in line 23, for "115BAB," read "115BAA,".
2. At page 9,-
  - (i) in line 4, for "brackets, figures" read "brackets, words, figures";
  - (ii) in line 9, for "brackets, figures" read "brackets, words, figures".

DR. G. NARAYANA RAJU,  
*Secretary to the Govt. of India.*